

प्रेस-विज्ञप्ति

बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए की वित्तीय परिणामों की
घोषणा
आस्ति पर प्रतिलाभ में निरंतरता एवं सुदृढ़ आस्ति गुणवत्ता : बैंक ने वित्त वर्ष'25 की तीसरी
तिमाही में जारी रखा अच्छा प्रदर्शन

प्रमुख विशेषताएं

- बैंक ऑफ़ बड़ौदा वित्त वर्ष'25 के 9 महीनों के दौरान 12.6% की वृद्धि के साथ 14,533 करोड़ रुपये का निवल लाभ अर्जित किया है।
- वित्त वर्ष'25 की तीसरी तिमाही में निवल लाभ वर्ष-दर-वर्ष 5.6% बढ़कर 4837 करोड़ रुपये रहा।
- आस्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार के कारण वित्त वर्ष'25 की तीसरी तिमाही में जीएनपीए 2.50% से नीचे 2.43% पर रहा जिसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 65 बीपीएस की कमी आई।
- बैंक का एनएनपीए भी कम होकर 0.59% हो गया, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 11 बीपीएस की कमी हुई है।
- स्लिपेज अनुपात वित्त वर्ष'25 की तीसरी तिमाही के लिए 0.90 तथा वित्त वर्ष'25 के 9 महीनों के दौरान 0.81% पर रहा।
- बेहतर आस्ति गुणवत्ता के कारण वित्त वर्ष'25 की तीसरी तिमाही के लिए ऋण लागत 1% से नीचे अर्थात् 0.30% पर बनी रही एवं वित्त वर्ष 25 के 9 महीनों के लिए यह 0.47% रही।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा का तुलन-पत्र सुदृढ़ रहा और इसका प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) टीडब्ल्यूओ के साथ 93.51% और टीडब्ल्यूओ के बिना 76.03% रहा।
- आस्ति पर प्रतिलाभ (आरओए) 1% से अधिक रहा और वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही के लिए 1.15% तथा वित्त वर्ष'25 के 9 महीनों के लिए यह 1.17% रहा।
- तिमाही के लिए इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) 17.01% तथा वित्त वर्ष'25 के 9 महीनों के लिए 17.03% रहा।
- वर्ष'25 की तीसरी तिमाही के लिए परिचालनगत लाभ वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 9.3% की वृद्धि के साथ 7,664 करोड़ पर रहा।
- परिचालनगत आय में वृद्धि का एक बड़ा कारण रहा गैर-ब्याज आय में वृद्धि जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 34.1% की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष'25 की तीसरी तिमाही में 3,769 करोड़ पर रही।
- वित्त वर्ष'25 की तीसरी तिमाही के लिए बैंक का लागत-आय अनुपात भी वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 4 बीपीएस घटकर 49.53% रहा।
- वित्त वर्ष'25 की तीसरी तिमाही में बीओबी के वैश्विक अग्रिम में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 11.8% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई जिससे बैंक की रिटेल ऋण बही सुदृढ़ बनी हुई है। ऑटो ऋण (21.1%), गृह ऋण (16.6%), मॉर्गेज ऋण (16.3%), शिक्षा ऋण (16.9%) जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वृद्धि होने से बैंक के ऑर्गेनिक रिटेल ऋण में 19.5% की वृद्धि दर्ज हुई है।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 15.96% के सुदृढ़ स्तर पर रहा।

लाभप्रदता

- ❖ बीओबी ने वित्त वर्ष'25 की तीसरी तिमाही में **4,837** करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन निवल लाभ दर्ज किया, जबकि वित्त वर्ष'24 की तीसरी तिमाही में **4,579** करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। वित्त वर्ष'25 के 9 महीनों के लिए निवल लाभ **14,533** करोड़ रुपये (+12.6% वर्ष-दर-वर्ष) रहा, जबकि वित्त वर्ष'24 के 9 महीनों के लिए यह **12,902** करोड़ रुपये था।
- ❖ वित्त वर्ष'25 की तीसरी तिमाही में निवल ब्याज आय (एनआईआई) वर्ष-दर-वर्ष आधार पर **2.8%** की वृद्धि के साथ **11,417** करोड़ रुपये रही। वित्त वर्ष'25 के 9 महीनों के लिए एनआईआई में **5.2%** की वृद्धि दर्ज की गई और यह **34,639** करोड़ रुपये रही।
- ❖ वित्त वर्ष'25 की तीसरी तिमाही में गैर-ब्याज आय वर्ष-दर-वर्ष आधार पर **34.1%** बढ़कर **3,769** करोड़ रुपये हो गई। वित्त वर्ष'25 के 9 महीनों के लिए गैर-ब्याज आय **11%** की वृद्धि के साथ **11,438** करोड़ रुपये रही।
- ❖ वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही में अग्रिम पर प्रतिफल **8.35%** रहा, जो वित्त वर्ष'24 की तीसरी तिमाही में **8.51%** था।
- ❖ जमा की लागत वित्त वर्ष'25 की तीसरी तिमाही में बढ़कर **5.08%** हो गई, जो वित्त वर्ष'24 की तीसरी तिमाही में **4.96%** थी।
- ❖ वित्त वर्ष'25 की तीसरी तिमाही के लिए परिचालनगत आय **15,186** करोड़ रुपये रही। वित्त वर्ष'25 के 9 महीनों के लिए परिचालनगत आय में **6.6%** की वृद्धि हुई एवं यह **46,076** करोड़ रुपये रही।
- ❖ वित्त वर्ष'25 की तीसरी तिमाही के लिए परिचालनगत लाभ **7,664** करोड़ रुपये रहा (+**9.3%** वर्ष-दर-वर्ष)।
- ❖ वित्त वर्ष'25 के 9 महीनों के लिए परिचालनगत लाभ **6.3%** बढ़कर **24,303** करोड़ रुपये रहा।
- ❖ वित्त वर्ष'25 की तीसरी तिमाही के लिए कोस्ट टू इंकम अनुपात वर्ष दर वर्ष 4 बीपीएस के सुधार के साथ **49.53%** पर रहा। वित्त वर्ष'25 के 9 महीनों के लिए कोस्ट टू इंकम अनुपात **47.26%** रहा।
- ❖ आस्तियों पर प्रतिलाभ (वार्षिकीकृत) वित्त वर्ष'25 की तीसरी तिमाही में **1.15%** रहा। वित्त वर्ष'25 के 9 महीनों के लिए आस्तियों पर प्रतिलाभ **1.17%** रहा।
- ❖ इक्विटी पर प्रतिलाभ (वार्षिकीकृत) वित्त वर्ष'25 की तीसरी तिमाही के लिए **17.01%** रहा। वित्त वर्ष'25 के 9 महीनों के लिए आरओई **17.03%** रहा।

- ❖ वित्त वर्ष'25 की तीसरी तिमाही में समेकित इकाई का निवल लाभ 5,214 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष'24 की तीसरी तिमाही में यह 4,789 करोड़ रुपये था।

आस्ति गुणवत्ता

- ❖ वित्त वर्ष'25 की तीसरी तिमाही में बैंक का सकल एनपीए वर्ष-दर-वर्ष 11.9% घटकर 28,471 करोड़ रुपये हो गया और सकल एनपीए अनुपात वित्त वर्ष'24 की तीसरी तिमाही के 3.08% की तुलना में सुधरकर वित्त वर्ष'25 की तीसरी तिमाही में 2.43% हो गया।
- ❖ वित्त वर्ष'25 की तीसरी तिमाही में बैंक का निवल एनपीए अनुपात 0.59% के निचले स्तर पर रहा, जबकि वित्त वर्ष'24 की तीसरी तिमाही में यह 0.70% था।
- ❖ वित्त वर्ष'25 की तीसरी तिमाही में बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात टीडब्ल्यूओ सहित 93.51% और टीडब्ल्यूओ को छोड़कर 76.03% रहा।
- ❖ वित्त वर्ष'25 के 9 महीनों के लिए स्लिपेज अनुपात घटकर 0.81% हो गया जो वित्त वर्ष'24 के 9 महीनों के लिए 1.06% था। वित्त वर्ष'25 की तीसरी तिमाही में भी स्लिपेज अनुपात 0.90% पर रहा जो वित्त वर्ष'24 की तीसरी तिमाही में 0.95% था।
- ❖ वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही के लिए ऋण लागत 0.30% रही एवं वित्त वर्ष 25 के 9 महीनों के लिए यह 0.47% रही।

पूंजी पर्याप्तता

- ❖ दिसंबर'24 में बैंक का सीआरएआर 15.96% रहा। दिसंबर'24 को टियर-I 13.44% (सीईटी-1 12.38%, एटी1 1.06% पर) और दिसंबर'24 के लिए टियर-II 2.52% पर रहा।
- ❖ समेकित इकाई का सीआरएआर और सीईटी-1 क्रमशः 16.36 % और 12.86% रहा।
- ❖ चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) समेकित रूप से 130% (लगभग) पर रहा।

व्यवसाय कार्यनिष्पादन

- ❖ बैंक का वैश्विक अग्रिम बढ़कर 11,73,034 करोड़ रुपये हो गया, इसमें वर्ष-दर-वर्ष +11.8% की वृद्धि हुई।
- ❖ बैंक का घरेलू अग्रिम बढ़कर 9,64,869 करोड़ रुपये हो गया, इसमें वर्ष-दर-वर्ष +11.9% की वृद्धि हुई।
- ❖ वैश्विक जमाराशि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 11.8% बढ़कर 13,92,461 करोड़ रुपये रही।
- ❖ दिसंबर'24 में घरेलू जमाराशि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 9.2% बढ़कर 11,65,874 करोड़ रुपये रही।
- ❖ दिसंबर'24 में अंतर्राष्ट्रीय जमाराशि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 27.3% बढ़कर 2,26,588 करोड़ रुपये रही।
- ❖ ऑटो ऋण (21.1%), गृह ऋण (16.6%), मॉर्गेज ऋण (16.3%), शिक्षा ऋण(16.9%) जैसे उच्च संकेंद्रण क्षेत्रों में वृद्धि होने से बैंक के ऑर्गेनिक रिटेल ऋण में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 19.5% की वृद्धि दर्ज हुई।

- ❖ कृषि ऋण पोर्टफोलियो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 12.5% बढ़कर 1,51,050 करोड़ रुपये रहा।
- ❖ कुल स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो (रिटेल और कृषि सहित) 58,172 करोड़ रुपये का रहा, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 29.1% की वृद्धि हुई।
- ❖ ऑर्गेनिक एमएसएमई पोर्टफोलियो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 13.6% बढ़कर 1,31,769 करोड़ रुपये का रहा।
- ❖ कॉर्पोरेट अग्रिम वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 6.8% बढ़कर 3,87,405 करोड़ रुपये का रहा।

31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही एवं 9 माह का वित्तीय परिणाम

विवरण (करोड़ रुपये में)	वित्त वर्ष'24 की तीसरी तिमाही	वित्त वर्ष'25 की दूसरी तिमाही	वित्त वर्ष'25 की तीसरी तिमाही	वर्ष-दर-वर्ष (%)	वित्त वर्ष'24, 9 माह	वित्त वर्ष'25, 9 माह	वर्ष-दर-वर्ष (%)
ब्याज से आय	28,605	30,263	30,908	8.0	83,023	90,800	9.4
ब्याज पर व्यय	17,504	18,641	19,491	11.3	50,094	56,161	12.1
निवल ब्याज आय (एनआईआई)	11,101	11,622	11,417	2.8	32,929	34,639	5.2
गैर ब्याज आय	2,810	5,181	3,769	34.1	10,304	11,438	11.0
परिचालनगत आय	13,912	16,803	15,186	9.2	43,233	46,076	6.6
परिचालनगत व्यय	6,897	7,326	7,522	9.1	20,373	21,774	6.9
परिचालन लाभ	7,015	9,477	7,664	9.3	22,859	24,303	6.3
कुल प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय	666	2,336	1,082	62.5	4,774	4,429	-7.2
जिनमें से, एनपीए अशोध्य कर्ज राइट ऑफ के लिए प्रावधान	1,007	1,733	871	-13.5	4,986	3,874	-22.3
कर अदायगी से पूर्व लाभ	6,349	7,141	6,582	3.7	18,085	19,873	9.9
कर हेतु प्रावधान	1,769	1,903	1,745	-1.4	5,183	5,340	3.0
निवल लाभ	4,579	5,238	4,837	5.6	12,902	14,533	12.6

व्यावसायिक स्थिति

विवरण (करोड़ रुपये में)	31 दिसंबर, 2023	30 सितंबर, 2024	31 दिसंबर, 2024	वर्ष-दर-वर्ष (%)
घरेलू जमा	10,67,371	11,50,791	11,65,874	9.2
घरेलू कासा	4,34,337	4,58,425	4,62,617	6.5
वैश्विक जमा	12,45,300	13,63,486	13,92,461	11.8
घरेलू अग्रिम	8,62,086	9,38,883	9,64,869	11.9
जिसमें से, रिटेल ऋण पोर्टफोलियो (ऑर्गेनिक)	2,03,627	2,32,311	2,43,360	19.5
वैश्विक अग्रिम	10,49,327	11,43,039	11,73,034	11.8

प्रमुख अनुपात

विवरण	वित्त वर्ष'24 की तीसरी तिमाही	वित्त वर्ष'25 की दूसरी तिमाही	वित्त वर्ष'25 की तीसरी तिमाही
वैश्विक एनआईएम %	3.10	3.10	2.94
आस्ति पर प्रतिलाभ (%)	1.20	1.30	1.15
सीआरएआर (%)	14.72	16.26	15.96
सीईटी-1 (%)	11.11	12.67	12.38
सकल एनपीए (%)	3.08	2.50	2.43
निवल एनपीए (%)	0.70	0.60	0.59
पीसीआर (टीडब्ल्यूओ के साथ) (%)	93.39	93.61	93.51

30 जनवरी, 2025

मुंबई

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के बारे में

20 जुलाई, 1908 को सर सयाजीराव गायकवाड़ III द्वारा स्थापित बैंक ऑफ़ बड़ौदा भारत का एक अग्रणी वाणिज्यिक बैंक है। 63.97% शेयर के साथ यह मुख्यतः भारत सरकार के स्वामित्व वाला बैंक है। पांच महाद्वीपों के 17 देशों में फैले 70,000 से अधिक टच-प्वाइंट्स तथा सहज और बाधारहित तरीके से सभी बैंकिंग उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध कराने वाले अपने विभिन्न डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंक 165 मिलियन के वैश्विक ग्राहक आधार को सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैंक का दृष्टिकोण उसके विविधतापूर्ण ग्राहक आधार की अपेक्षाओं की पूर्ति करता है और बैंक अपने ग्राहकों को उनके सभी बैंकिंग लेन-देन में विश्वास और सुरक्षा का अनुभव प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है।

हमसे जुड़ें :

वेबसाइट : www.bankofbaroda.in

फेसबुक <https://www.facebook.com/bankofbaroda/>

ट्विटर <https://twitter.com/bankofbaroda>

इंस्टाग्राम <https://www.instagram.com/officialbankofbaroda/>

यूट्यूब <https://www.youtube.com/channel/UCdf14FHPLt7omkE9CmyrVHA>

लिंकडइन <https://www.linkedin.com/company/bankofbaroda/>

मीडिया प्रश्नों के लिए, कृपया संपर्क करें:

बैंक ऑफ़ बड़ौदा: फिरोज़ा चोकसी | +91 9820363681 | corp.pr@bankofbaroda.com

एडफैक्टर्स पीआर: मोहसिन वडगामा | +91 8484848485 | mohsin.vadgama@adfactorspr.com

अधिक जानकारी के लिए, कृपया संपर्क करें:

श्री मनोज चयानी
मुख्य वित्तीय अधिकारी
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
मुंबई

Cfo.bcc@bankofbaroda.co.in